



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

---

शिमला, सोमवार 28 नवम्बर, 2011 / 7 अग्रहायण, 1933

---

हिमाचल प्रदेश सरकार

PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT

NOTIFICATION

*Shimla-171009, 26th November, 2011*

**No. PCH-HB(15)10/2011.**—The Governor of Himachal Pradesh is pleased to amend the scheme for appointment for Block Engineer of contract basis by the Zila Parishad in Himachal Pradesh, notified *vide* Notification No. PCH-HB(1)36/01J.E., dated 21.8.2010, in the following manner, namely:—

After Sr. NO. 11 of the scheme for appointment for Block Engineer of contract basis by the Zila Parishad in Himachal Pradesh, the following new Sr.No. 11-A shall be inserted, namely:-

**“11-A. Technical sanction powers of Block Engineers.**—The Block Engineer shall have the same technical sanction powers as are applicable to the Assistant Engineers of the Panchayati Raj and Rural Department appointed by the Zila Parishad under section 135 or deputed by the State Government under section 136, as the case may

be, of the Himachal Pradesh Panchayati Raj 1994 under Appendix-D of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Finance, Budget, Accounts, Audit, Works, Taxation and Allowances. Rules, 2002.”

By order,  
**S K B S NEGI,**  
Principal Secretary (Panchayati Raj).

### लोक निर्माण विभाग

#### अधिसूचना

शिमला-2, 25 नवम्बर, 2011

**संख्या पी.बी.डब्ल्यू (बी)एफ (5)35/2011.**—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव पट्टा, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर में पट्टा-उखली सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा, 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितवद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी, हिमाचल प्रदेश के समक्ष लिखित आपत्तिदायर कर सकता है।

#### विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र (कनाल मरला) में
हमीरपुर	भोरंज	पट्टा	1677 / 1027	1-8
		<b>कुल जोड़</b>	<b>किता-1</b>	<b>1-8</b>

आदेश द्वारा,  
हस्ताक्षरित / —  
प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।

### लोक निर्माण विभाग

#### अधिसूचना

शिमला-2, 25 नवम्बर, 2011

**संख्या पी.बी.डब्ल्यू (बी)एफ (5)71/2010.**—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव जाहू कलां, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर में ऊना-अधार-नैर चौक सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा, 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत: अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितवद् व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी, हिमाचल प्रदेश के समक्ष लिखित आपत्तिदायर कर सकता है।

### विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र कनाल मरले में
हमीरपुर	भोरंज	जाहू कलां	1061	8—18
			1062 / 2	6—16
			1063 / 2	3—4
			1071 / 2—3	2—11
			1932 / 1070	3—9
			1741 / 1074 / 2—3	8—7
			1078	2—8
			1079 / 3	4—8
			1064 / 2	2—18
			कुल जोड	किता—9

आदेश द्वारा,  
हस्ताक्षरित/-  
प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।

### लोक निर्माण विभाग

#### अधिसूचना

शिमला-2, 25 नवम्बर, 2011

**सं० पी०बी०डब्ल्यू०(बी०)एफ(5)30/2008.**—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव कस्वाड, तहसील व जिला कांगड़ा में राष्ट्रीय उच्च मार्ग-88 पर बुनेर खड्ड पुल निर्माण के सम्पर्क सडक निर्माण के हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा, 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत: अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. अत्याधिक आवश्यकता के दृष्टिगत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा 17(4) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 5(ए)(2) के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे।

5. भूमि का रेंखाक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश, लोक निर्माण विभाग (म0क्षे0), मण्डी, हिमाचल प्रदेश में किया जा सकता है।

### विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नं०	रकबा (है० में)
कांगड़ा	कांगड़ा	कस्वाड़	277 / 1 / 2	0-16-21
			277 / 2	0-37-85
			<b>किता-2</b>	<b>0-54-06</b>

आदेश द्वारा,  
हस्ताक्षरित / -  
प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।

### लोक निर्माण विभाग

#### अधिसूचना

शिमला-2, 26 नवम्बर, 2011

**संख्या पी.बी.डब्ल्यू(बी)एफ (5)66 / 2011.**—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव नवाही / 368, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी में जोगिन्द्रनगर-सरकाघाट-घुमारवीं सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा, 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी, हिमाचल प्रदेश के समक्ष लिखित आपत्तिदायर कर सकता है।

### विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र (है०) में
मण्डी	सरकाघाट	नवाही / 368	8 / 1	0-02-95
			1970 / 621	0-01-35
			1971 / 621 / 1	0-00-38
			1971 / 621 / 2	0-02-63
			633 / 1	0-01-39

634 / 1	0-00-36
635 / 1	0-00-66
637 / 1	0-00-21
638 / 1	0-00-47
639 / 1	0-00-16
1973 / 640 / 1	0-04-87
693	0-00-28
694	0-00-24
695	0-00-48
696	0-00-72
664 / 1	0-00-80
653 / 1	0-00-70
667 / 1	0-02-61
690 / 1	0-00-13
688	0-00-04
687 / 1	0-00-09
686 / 1	0-00-24
684 / 1	0-00-18
683 / 1	0-00-12
682 / 1	0-00-27
681 / 1	0-00-04
680	0-00-16
678 / 1	0-00-05
677 / 1	0-00-08
674 / 1	0-00-02
670 / 1	0-00-18
671 / 1	0-00-18
704 / 1	0-00-30
703 / 1	0-00-42
702 / 1	0-00-15
701 / 1	0-00-47
710 / 1	0-00-86
711 / 1	0-00-71
712	0-01-08
718 / 1	0-00-24
719 / 1	0-00-24
726 / 1	0-01-68
729 / 1	0-00-54
730 / 1	0-00-40
731 / 1	0-00-76
733 / 1	0-00-70
1933 / 738 / 1	0-01-08
1933 / 738 / 2	0-02-16
735 / 1	0-02-84
736 / 1	0-00-58
737 / 1	0-00-54
1930 / 738 / 1	0-00-24
1932 / 738 / 1	0-00-15
1931 / 738 / 1	0-00-15

---

1242 / 1	0-00-56
1945 / 1241 / 1	0-00-59
1945 / 1241 / 2	0-00-60
1944 / 1241 / 1	0-00-42
1322 / 1	0-00-15
2000 / 1350	0-00-05
2001 / 1350	0-00-24
2002 / 1350 / 1	0-00-48
1350 / 1 / 1	0-00-03
1352 / 1	0-00-24
1527 / 1	0-01-18
1527 / 2	0-01-06
1524 / 1	0-00-02
1526 / 1	0-00-15
1519 / 1	0-00-48
1561 / 1	0-00-10
1552 / 1	0-00-39
1551 / 1	0-01-50
1130 / 1	0-00-51
1131 / 1	0-00-45
1132 / 1	0-00-72
1133 / 1	0-00-33
1136 / 1	0-01-04
1137 / 1	0-00-22
1138 / 1	0-00-47
1164 / 1	0-00-36
1165 / 1	0-00-16
1939 / 1168 / 1	0-00-08
1938 / 1168 / 1	0-00-08
1169 / 1	0-00-08
1170 / 1	0-00-24
1174 / 1	0-00-04
1176 / 1	0-00-02
1177 / 1	0-00-04
1178 / 1	0-00-16
1236 / 1	0-00-24
1235 / 1	0-00-36
2032 / 1983 / 1	0-00-36
1982 / 1233 / 1	0-00-18
1232 / 1	0-00-39
1980 / 1231 / 1	0-00-15
1981 / 1231 / 1	0-00-15
1230	0-00-21
1229 / 1 / 1	0-00-28
1229 / 1	0-00-40
1227 / 1	0-00-28
1226 / 1	0-00-20
1225 / 1	0-00-15
1214	0-00-20

1215 / 1	0-00-41
1213 / 1	0-00-76
1212 / 1	0-00-46
2027 / 1210 / 1	0-00-66
2028 / 1210 / 1	0-00-34
1195 / 2	0-00-87
1194	0-00-77
1196 / 1	0-00-04
1200 / 1	0-00-38
1202 / 2	0-00-23
1193 / 1	0-00-14
<b>कुल किता 114</b>	<b>0-61-18</b>

आदेश द्वारा,  
हस्ताक्षरित /—  
प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।

### लोक निर्माण विभाग

#### अधिसूचना

शिमला-2, 26 नवम्बर, 2011

**संख्या पी.बी.डब्ल्यू(बी)एफ (5) 58/2011.**—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव गोडी गुलाण/374, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी में जोगिन्द्रनगर-सरकाघाट-घुमारवीं सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा, 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी, हिमाचल प्रदेश के समक्ष लिखित आपत्तिदायर कर सकता है।

#### विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र (है0) में
मण्डी	सरकाघाट	गोडी गुलाण/374	107 / 1	0-01-16
			108 / 1	0-01-36
			117	0-00-84
			118 / 1	0-01-73
			120 / 1	0-00-61

---

115	0-00-16
116	0-00-08
113 / 1	0-00-09
114 / 1	0-00-15
168 / 1	0-00-56
167 / 1	0-00-78
166 / 1	0-00-79
165 / 1	0-03-06
163 / 1	0-00-83
339 / 1	0-00-14
340 / 1	0-00-12
342	0-00-08
341 / 1	0-00-16
343 / 1	0-00-34
344	0-00-60
345 / 1	0-00-08
357 / 1	0-00-06
358 / 1	0-00-58
952 / 360 / 1	0-00-27
953 / 360 / 1	0-00-24
361 / 1	0-00-14
362 / 1	0-00-31
363 / 1	0-00-08
364 / 1	0-00-08
394 / 1	0-00-22
395 / 1	0-00-20
396 / 1	0-00-44
410 / 1	0-01-14
955 / 411 / 1	0-00-17
956 / 413	0-00-10
957 / 413 / 1	0-00-92
421 / 1 / 1	0-00-18
423 / 1	0-00-05
424 / 1	0-00-24
422	0-00-42
422 / 1 / 1	0-00-59
424 / 1	0-00-40
435 / 1	0-00-15
436 / 1	0-01-02
437 / 1	0-00-39
440 / 1	0-00-14
445 / 1	0-00-88
161 / 1	0-00-54
160 / 1	0-00-32
159 / 1	0-00-18
157	0-00-04
158	0-00-07
127 / 1	0-00-30
154 / 1	0-00-90



153 / 1	0-00-39
147	0-00-87
138 / 1	0-01-12
139 / 1	0-00-63
145 / 1	0-00-57
144 / 1	0-00-25
141 / 1	0-00-18
944 / 941 / 1	0-00-20
940 / 142 / 1	0-00-15
448 / 1	0-00-68
455 / 1	0-00-32
457 / 1	0-00-28
458 / 1	0-00-22
459 / 1	0-00-16
460 / 1	0-00-28
461 / 1	0-00-35
467 / 1	0-00-28
468 / 1	0-00-38
469 / 1	0-00-09
470 / 1	0-00-06
471 / 1	0-00-06
472 / 1	0-00-09
473 / 1	0-00-20
518 / 1	0-00-48
520 / 1	0-01-13
970 / 524 / 1	0-00-20
971 / 524 / 1	0-00-09
<b>कुल जोड़</b>	<b>किता-81</b>
	<b>0-35-19</b>

आदेश द्वारा,  
हस्ताक्षरित / -  
प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।

### लोक निर्माण विभाग

#### अधिसूचना

शिमला-2, 25 नवम्बर, 2011

**संख्या पी.बी.डब्ल्यू(बी)एफ (5)54 / 2011.**—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव पौंटा/453, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी में जोगिन्द्रनगर-सरकाघाट-घुमारवीं सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा, 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी, हिमाचल प्रदेश के समक्ष लिखित आपत्तिदायर कर सकता है।

### विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र (है0) में
मण्डी	सरकाघाट	पौटा/453	266/2/1	0-00-25
			265/1	0-00-47
			262	0-00-60
			263	0-00-16
			264/2	0-01-04
			305/2/1	0-00-52
			310/2/1	0-01-39
			309/2	0-00-96
			316/2/1	0-02-73
			322/2/1	0-02-71
			323/2/1	0-01-95
			399/3/1	0-01-08
			<b>कुल जोड़</b>	<b>किता-12</b>
				<b>0-13-86</b>

आदेश द्वारा,  
हस्ताक्षरित/—  
प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।

### लोक निर्माण विभाग

#### अधिसूचना

शिमला-2, 11 नवम्बर, 2011

**संख्या पी.बी.डब्ल्यू(बी)एफ (5)378/2007.**—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव घण्डालवी, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर में ऊना-अघार-जाहू सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है, कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश

करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत: अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी, हिमाचल प्रदेश के समक्ष लिखित आपत्तिदायर कर सकता है।

### विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र बीघा में
बिलासपुर	घुमारवी	घण्डालवी	62/1	0-3
		कुल जोड़	किता-1	0-3

आदेश द्वारा,  
हस्ताक्षरित / -  
प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।

## OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER, SOLAN DISTRICT, SOLAN

### PUBLICNOTICE

*Solan, the 22th November, 2011*

**No. Peshi/III-14/88-V-1655-56.**—Notice under Rule 6(2)(b) of the Notaries Rules, 1956 It is hereby informed to the general public that the following Advocates have applied under Rule 4 of the Notaries Rules 1956, framed under the Notaries Act 1952, for the appointment of Notary Public.

In case any Person, Bar Association or any other Authority has any objections for their appointment as Notary Public the same may be objected in person or addressed to the undersigned in writing, within a period of one month from today.

Sr No.	Name of Applicant	Area proposed to be
1.	Smt Rohita Bhalla, Advocate	practice as Notary Sub Division Solan.
2.	Sh Kushal Chanta, Advocate	Sub Division Solan.

A copy of this notice be published in Rajpatra, Himachal Pradesh and on the notice board of the Deputy Commissioner office Solan, District Court Solan, Sub Divisional Magistrates office Solan. Issued under my signature and seal of the court today the 22nd day of November 2011.

By order,  
Sd/-  
Deputy Commissioner, Solan District, Solan.

## हिमाचल प्रदेश सरकार

## उद्योग विभाग

## भौमिकीय शाखा

No.Udyog-Bhu(Khani-4)Laghu-92/2002-

2011

नीलागी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिला कांगड़ा के 8 उपमण्डलों में पड़ने वाली 48 लघु खनिज खानों/खड़्डों की नीलामी दिनांक 30-12-2011 व 31-12-2011 को प्रातः 11.00 बजे जिला परिषद हॉल धर्मशाला में की जायेगी जिसका उपमण्डल-वार विवरण निम्न अनुसार है:-

दिनांक व समय	उपमण्डल का नाम	नीलामी हेतु स्थल का नाम
30-12-2011 को 11.00 बजे	बैजनाथ, जयसिंहपुर, पालगपुर	जिला परिषद हॉल, धर्मशाला
31-12-2011 को 11.00 बजे	धर्मशाला, कांगड़ा, देहरा, ज्वाली व नूरपुर	जिला परिषद हॉल, धर्मशाला

उपरोक्त उपमण्डलों में पड़ने वाली खानों/खड़्डों की नीलामी इस शर्त पर अधिसूचित की जा रही है कि यदि नीलामी वाले दिन जिन खड़्डों का वन विभाग से अन्नापति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ होगा उसे पीठासीन अधिकारी की सहमति/आदेशानुसार नीलामी सूची से हटा दिया जाएगा। इच्छुक व्यक्ति खानों के पूर्ण विवरण/शर्तों तथा खानों से सम्बन्धित अन्य जानकारी के लिए खनि अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला से किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क करें या विभागीय Website [www.himachal.nic.in/industry](http://www.himachal.nic.in/industry) पर पूर्ण विवरण प्राप्त किया जा सकता है। लघु खनिज खानों जैसे रेत, पत्थर व बजरी की नीलामी 3 वर्ष के लिए वार्षिक बोली के आधार पर की जायेगी परन्तु खानों की बोली की स्वीकृति बोली राशि प्राप्ति के आधार पर प्रदेश सरकार की निम्नलिखित नीति के अनुसार प्रदान की जाएगी।

- |    |   |        |
|----|---|--------|
| 1— | जहां बोली पिछली बोली से 50 प्रतिशत से अधिक प्राप्त होती है                    | 3 वर्ष |
| 2— | जहां बोली पिछली बोली से 20 प्रतिशत से अधिक व 50 प्रतिशत से कम प्राप्त होती है | 1 वर्ष |
| 3— | जहां बोली पिछली बोली से अधिक आती है पर 20 प्रतिशत से कम हो                    | 3 माह  |

हस्ता०/-

निदेशक उद्योग

हिमाचल प्रदेश।

**Government of Himachal Pradesh  
Department of Industries  
Geological Wing**

No.Udyog-Bhu(Khani-4)Laghu-92/2002-

2011

**Auction Notice**

It is for the information of general public that the mineral rights of 48 minor mineral quarries falling in 8 Sub Divisions of District Kangra are being put to public auction on 30.12.2011 & 31.12.2011 at 11.00 A.M. in the Zila Parishad Hall, Dharamshala. The Sub Division-wise detail is as under:

<b>Date &amp; Time</b>	<b>Name of the Sub Division in which the proposed auction quarries falls</b>	<b>Venue of Auction</b>
30.12.2011 at 11.00 A.M.	Bajjnath, Jaisinghpur & Palampur	Zila Parishad Hall, Dharamshala
31.12.2011 at 11.00 A.M.	Dharamshala, Kangra, Dehra, Jawali & Nurpur	Zila Parishad Hall, Dharamshala

The quarries of khads falling in the above mentioned Sub Divisions are being auctioned subject to the conditions that if the Forest Department will not issue No Objection Certificates for any of the proposed quarries upto the auctioned date, the same shall be deleted from the auction list with due concurrence/permission of the Presiding Officer. The interested persons may contact the Mining Officer, Kangra at Dharamshala for detailed information/terms and conditions of the auction on any working day or the same can be downloaded from the Department **website [www.himachal.nic.in/industry](http://www.himachal.nic.in/industry)**. The auction of minor mineral quarries of Sand, Stone and Bajri shall be conducted for 3 years but approval of the bid shall be on the basis of the bid received as per State Govt. Policy given below:-

- |    |   |   |          |
|----|---|---|----------|
| 1. | Where the bid exceeds the previous bid by more than 50%   | - | 3 years  |
| 2. | Where the bid exceeds the previous bid by more than 20% but does not exceed the previous bid by more than 50% | - | 1 year   |
| 3. | Where the bid is more than previous bid but does not exceed more than 20%.                                    | - | 3 months |

Sd-

Director of Industries  
Himachal Pradesh

<b>LIST OF AUCTION PROPOSAL OF (48) MINOR MINERALS QUARRIES FOR RIVER BED MINING OF STONE/BAJRI/SAND IN DISTRICT KANGRA</b>								
<b>Sr. No.</b>	<b>Name of Query</b>	<b>Name of Mineral</b>	<b>Khasra No.</b>	<b>Area in Hect.</b>	<b>Mohal</b>	<b>Mauja</b>	<b>Type of Land</b>	<b>Land Owner</b>
<b>BAIJNATH SUB DIVISION</b>								
1	Awa Khad-IV (Tarehal)	Sand, Stone & Bajri	1/1	1-06-71	Tarehal	Tarehal	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
2	Binwa Khad	Sand, Stone & Bajri	121, 299	1-14-26	Balh	Lanod	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
3	Binwa Khad	Sand, Stone & Bajri	1/2, 1/3	0-86-81	Gankhetar	Bajjnath	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
4	Binwa Khad Down Stream of the (Railway Bridge)	Sand, Stone & Bajri	1/2	1-00-11	Bajjnath	Bajjnath	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
5	Binwa Khad (Kaswa)	Sand, Stone & Bajri	1/1	1-60-04	Kaswa	Bajjnath	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
6	Binwa Khad (Burli Kothi)	Sand, Stone & Bajri	578/2/1	1-19-17	Kothi	Paprola	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
7	Binwa Khad (Majherna)	Sand, Stone & Bajri	540/1, 1675	3-52-23	Majherna	Majherna	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
8	Binwa Khad (Sagoor)	Sand, Stone & Bajri	502	2-71-13	Sagoor	Sagoor	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
9	Binwa Khad (Duhki)	Sand, Stone & Bajri	569	1-87-36	Duhki	Sagoor	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
10	Binwa Khad (Sakri)-I	Sand, Stone & Bajri	921, 1075	1-35-37	Narghor	Sakri	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
11	Binwa Khad (Dandhol)	Sand, Stone & Bajri	1344, 1347, 1351, 1596/1, 1806	4-85-15	Balh, Dandhol Ghangole	Chadiar Gharsal	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
12	Binwa Khad (Babal)	Sand, Stone & Bajri	307, 1635	4-52-60	Babal	Sansai	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.

13	Binwa Khad (Chamb)	Sand, Stone & Bajri	1656, 1657	1-31-31	Chamb	Sansai	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
14	Punkhad (Nouri-Jhikli)	Sand, Stone & Bajri	605/1, 964/1	1-13-60	Jhikli Nour	Nouri	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
15	Sansali Khad	Sand, Stone & Bajri	513/1	1-07-20	Sansal	Sansal	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
16	Awa Khad-III (Sungal)	Sand, Stone & Bajri	986, 1335, 1184, 1334	1-85-28	Sungal	Sungal	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
17	Awa Khad-VI (Biara)	Sand, Stone & Bajri	941, 2192/ 2092	1-34-07	Biara	Agojar	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
18	Awa Khad-VII (Agojar)	Sand, Stone & Bajri	1619/1, 1/1	1-32-94	Agojar and Chaluhi	Agojar and Sagoor	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
19	Awa Khad-VIII (Machhuhi)	Sand, Stone & Bajri	1,1116/1	1-48-99	Balh	Sagoor	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
<b>JAISINGHPUR SUB DIVISION</b>								
20	Beas River Lambagaon-II	Sand, Stone & Bajri	884	2-11-33	Dasloon	Lambagaon	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
21	Beas River (Alampur Bag)	Sand, Stone & Bajri	737/2	1-04-64	Bag	Alampur	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
22	Haroti Khad	Sand, Stone & Bajri	1052	4-72-96	Bhati	Koshri	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
23	Mandh Khad (Gandar)	Sand, Stone & Bajri	1659	1-22-44	Gander	Bardam	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
<b>PALAMPUR SUB DIVISION</b>								
24	Moul Khad (Chula)	Sand, Stone & Bajri	227/1, 576/1, 579	3-42-80	Chulla	Thural	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
25	Sukad Khad (Sapruhal)	Sand, Stone & Bajri	369/1	1-95-72	Sapruhal	Garh Jamula	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
26	Baner Khad (Diyala)	Sand, Stone & Bajri	1	4-19-78	Diyala	Jia	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.

27	Awa Khad (Chandpur)	Sand, Stone & Bajri	919, 920, 925, 878, 949 & 1100	2-12-42	Chandpur, Bharmat Uprali	Bundla and Banoori	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
28	Awa Khad- II (Nain)	Sand, Stone & Bajri	249/2, 404/2	0-55-65	Nain	Kandwari	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
29	Moul Khad (Bhoda)	Sand, Stone & Bajri	817/2, 817/2/1, 817/2/2	1-06-45	Sai	Garh Jamula	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
<b>DHARAMSHALA SUB DIVISION</b>								
30	Baner Khad (Padher)	Sand, Stone & Bajri	1380/1, 1381, 1382/1	4-57-27	Padher	Jadrangal	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
31	Manooni Khad (Sukkar)	Sand, Stone & Bajri	630, 631, 641, 1066	2-91-13	Garh Sukkar	Sukkar	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
32	Manooni Khad (Mandal)	Sand, Stone & Bajri	79/1	1-58-51	Jasiyal	Mandal	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
33	Manjhi Khad	Sand, Stone & Bajri	935, 943, 1612/1	3-09-30	Uprli Dari and Gabli Dari	Ghanyara	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
34	Manjhi Khad (Maned)	Sand, Stone & Bajri	851/1	2-29-72	Maned	Maned	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
<b>KANGRA SUB DIVISION</b>								
35	Baner Khad (T.hanpuri)	Sand, Stone & Bajri	1244	1-45-88	Thanpuri	Rajiana	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
36	Baner Khad (Suneher)	Sand, Stone & Bajri	112	4-77-01	Sunehar	Sunehar	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
37.	Daroon Khad	Sand, Stone & Bajri	1387/1 and 1941	4-37-71	Rajiana	Rajiana	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
38	Daroon Khad (Dhaloon)	Sand, Stone & Bajri	611 934/2	1-62-40	Dhaloon	Dhaloon	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
39	Baner Khad (Khart)	Sand, Stone & Bajri	1245, 1438, 1435, 1423	2-95-45	Kharat	Kharat	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
40.	Baner Khad (Nandrool)	Sand, Stone & Bajri	872, 890	4-49-80	Maira	Nandrool	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.



DEHRA SUB DIVISION								
41	Beas River (Bharoli)	Sand, Stone & Bajri	434/2	2-97-90	Bedli	Bharoli	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
42	Dhaliara-1	Sand, Stone & Bajri	23	4-48-83	Dhaliara	Dhaliara	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
JAWALI SUB DIVISION								
43	Jhakhbar Khad (Beli Anutran)	Sand, Stone & Bajri	1247, 1248/1, 1249	4-32-96	Beli Anutran	Rey	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
44	Beas River (Tatwali)	Sand, Stone & Bajri	8/2/1, 873/1	4-63-25	Tatwali	Rey	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
45	Beas River (Rey)	Sand, Stone & Bajri	1482/1	4-89-70	Rey	Rey	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
NURPUR SUB DIVISION								
46	Chatroli Khan	Sand, Stone & Bajri	1, 468	1-61-65	Chatroli	Chatroli	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
47	Beas River (Palakh)	Sand, Stone & Bajri	608/1	4-38-49	Palakh	Palakh	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.
48	Gehi Jagore	Sand, Stone & Bajri	1722	2-18-56	Bhatka	Kapra	Gairmumkin Khad	H.P. Govt.

### नीलामी निम्नलिखित शर्तों के आधार पर की जाएगी।

- नीलामी के नियम व शर्तें हिमाचल प्रदेश लघु खनिज रियायत संशोधित नियमावली, 1971 के अनुसार नीलामी स्थल पर उद्घोषित भी की जाएगी।
- बोली प्रतिवर्ष के आधार पर दी जाएगी।
- कोई भी व्यक्ति जो बोली देने के इच्छुक हो, उस व्यक्ति के पास पेनकार्ड नम्बर होना अतिआवश्यक है तथा वही व्यक्ति बोली आरम्भ होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी के पास 50,000/-रुपये धरोहर राशि बैंक ड्राफ्ट द्वारा जो कि खनि अधिकारी, धर्मशाला के नाम देय हो जमा करायेगा। बैंक ड्राफ्ट के पीछे बोली दाता का नाम व पता लिखा होना चाहिए। जमा ड्राफ्ट, बोली समाप्त होने पर बोलीदाताओं को वापिस कर दिया जाएगा। नीलामी कमेटी किसी विशेष परिस्थिति में धरोहर राशि बढ़ा भी सकती है।
- यदि कोई बोलीदाता किसी लघु खनिज खान के खनिज अधिकारों की बोली दें, परन्तु वांछित राशि उसी समय जमा न करें या बोली देने के उपरान्त अनुपस्थित हो जाये, उस स्थिति में उस द्वारा जमा की गई अग्रिम धरोहर राशि जब्त की जायेगी और भविष्य में कम से कम 3 वर्ष के लिए प्रदेश में किसी भी स्थान पर ऐसा व्यक्ति बोली न दे सकेगा तथा उसी समय उक्त उत्खनी को पुनः नीलाम कर दिया जाएगा।
- जिन उत्खनियों के खनिज अधिकारों को नीलामी हेतु अधिसूचित किया गया है उनके खसरा नं० या फिर भौगोलिक सीमा/स्थाई चिन्हों की जानकारी, इच्छुक व्यक्ति/बोलीदाता सम्बन्धित खनि अधिकारी

- से प्राप्त कर सकता है। बोली केवल उसी क्षेत्रा की होगी, जो कि अधिसूचना में प्रस्तावित किए गए हैं जिसका पूर्ण विवरण खनि अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
6. बोलीदाता, बोली देने से पहले यदि चाहे तो वे अपने हित में अधिसूचित खानों का निरीक्षण कर सकता है।
  7. बोलीदाता किसी भी जिला में खनन से सम्बन्धित देय राशि का बकायादार नहीं होना चाहिए। यदि कोई बोलीदाता विभाग के बकायादार होने का दोषी पाया जाता है तो उसे नीलामी में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि बकायादार, नीलामी के मध्य बकाया राशि को जमा कर देता है तो उस अवस्था में वह नीलामी में भाग ले सकता है। यदि कोई बकायादार व्यक्ति कोई खान बोली पर ले लेता है, जिसका विभाग को बाद में ज्ञान होता है तो उस अवस्था में उस व्यक्ति द्वारा जमा राशि, बकाया राशि में समायोजित की जाएगी तथा खान का ठेका रद्द करके खान को पुनः नीलाम किया जाएगा।
  8. रेत, पत्थर व बजरी आदि की लघु खनिज खानों की अधिकतम अवधि 3 वर्ष होगी।
  9. उत्खनी के खनिज अधिकारों की बोली समाप्त होते ही वांछित राशि उच्चतम बोली दाता को पीठासीन अधिकारी के पास निम्न तरीकों से जमा करनी होगी। (i) जहां पर बोली राशि 1000/-रुपये प्रतिवर्ष की दर से अधिक होगी उस अवस्था में उच्च बोलीदाता बोली की 25 प्रतिशत राशि प्रतिभूति राशि के तौर पर तथा बोली की 25 प्रतिशत राशि पहली किश्त के रूप में जमा करवायेगा। प्रतिभूति राशि एफ0डी0आर के रूप में ली जाएगी। (ii) जहां बोली 1000/-रु0 से कम होगी वहां समस्त वार्षिक राशि एक मुश्त जमा करानी होगी तथा उसके अतिरिक्त 25 प्रतिशत प्रतिभूति राशि एवम् अन्य कर जमा करवाने होंगे। इसके अतिरिक्त बोली के आधार पर आयकर एवम् पंचायत टैक्स व अन्य टैक्स समय-समय पर जो नियमानुसार देय है उच्चतम बोलीदाता को जमा करवाने होंगे।
  10. सरकार को अधिकार है कि वे उच्चतम बोली को बिना किसी कारण बताये निर्धारित कर स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है।
  11. सरकार को अधिकार है कि वे ठेके की अवधि बढ़ा या घटा सकती है।
  12. कोई भी खनन कार्य राष्ट्रीय उच्च मार्ग /राज्य मार्ग से 60 मी0 व लिंक रोड से 50 मी0 की दूरी तक नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त खनन कार्य हि0 प्र0 लघु खनिज (संशोधित) नियमावली-1971 के प्रावधानों व सरकार द्वारा दिनांक 28.2.2004 को अधिसूचित रिवर/स्ट्रीम वैड माईनिंग पॉलिसी के अनुरूप होगी। उपरोक्त नियमों/ अधिसूचना की प्रति, खनि अधिकारी से प्राप्त की जा सकती है।
  13. बोली के दौरान यदि कोई बोलीदाता दुर्व्यवहार करता है तो पीठासीन अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह उस द्वारा जमा की गई अग्रिम धरोहर राशि जब्त करते हुये उसे बोली में हिस्सा लेने के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है।
  14. बोली केवल उसी अवस्था में स्वीकार होगी यदि बोली की स्वीकृति सरकार या अन्य किसी दूसरे सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत कर ली जाती है। स्वीकृति तिथि तथा नीलामी तिथि के समय अवधि में उच्च बोलीदाता को, बोली के अनुपात में अतिरिक्त राशि जमा करवाने पर अल्प अवधि परमिट लेना होगा। यदि उच्च बोलीदाता परमिट नहीं लेता है तो उस अवस्था में किसी दूसरे इच्छुक व्यक्ति को बोली के अनुपात में परमिट प्रदान किया जाएगा और बोलीदाता की उस पर कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
  15. नीलामी के लिए अधिसूचित लघु खनिज खानों के खनिज अधिकारों को खसरा नम्बरों द्वारा अधिसूचना में दर्शाया गया है, ही मान्य होगा तथा राजस्व रिकार्ड सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित खनि अधिकारी/महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र से प्राप्त की जा सकती है।

16. यदि नीलाम की गई लघु खनिज खानों का पूर्व ठेका नीलामी के समय चल रहा है तो नीलाम की गई उत्खनि का कब्जा उसी अवस्था में दिया जायगा जब वर्तमान ठेके की अवधि समाप्त होगी।
17. बोली में हिस्सा लेने वाले बोलीदाता, बोली के मध्य अपनी आपत्ति उठा सकते हैं। बोली समाप्त होने पर किसी प्रकार की आपत्ति पर सुनवाई नहीं की जाएगी।
18. सम्बन्धित ठेकेदार को हिमाचल प्रदेश लघु खनिज संशोधित नियमावली, 1971 के नियम-33 के अन्तर्गत स्वीकृति आदेश प्राप्त होने की तिथि से तीन माह के भीतर शर्तनामों पर हस्ताक्षर करने होंगे। यदि शर्तनामों पर हस्ताक्षर करने में ठेकेदार इस अवधि के मध्य असफल रहे, तो उस अवस्था में ठेका रद्द समझा जाएगा तथा उस द्वारा जमा करवाई गई प्रतिभूति राशि एवं अग्रिम जमा किश्त की राशि जब्त कर ली जाएगी।
19. पर्यावरण के हित में जहाँ सम्भव हो या विभाग द्वारा निर्देशित किया जाये वहाँ ठेकेदार द्वारा पौधारोपण व अन्य भू-स्खलन को रोकने के लिए Engineering Structure लगाने होंगे तथा ऐसा न करने पर विभाग द्वारा ठेका रद्द कर दिया जाएगा व जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी। इसके अतिरिक्त विभाग के किसी अधिकारी द्वारा यदि कोई शर्त पर्यावरण के संतुलन हेतु लगाई जाए तो ठेकेदार उनको मानने के लिए बाध्य होगा।
20. नीलामी समिति को अधिकार है कि वे नीलामी के समय किसी विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अलग से शर्तें लगा सकते हैं जो नीलामी आरम्भ होने से पूर्व इनकी घोषणा की जाएगी तथा सभी बोलीदाताओं को मान्य होगी। इसके अतिरिक्त खनन सम्बन्धि जो दिशा निर्देश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जायेंगे वे भी सभी को मान्य होंगे।
21. जनहित में यदि आवश्यक हो तो किसी भी नीलाम की गई खान के भाग को कम किया जा सकता है या खान को पूर्णरूप से भी बन्द किया जा सकता है। क्षेत्रा कम करने की अवस्था में रॉयल्टी भी उसी अनुपात में कम की जाएगी।
22. खनन हेतु मशीन उपकरण Mechanical/Hydraulic Excavator जैसे जे0सीबी0, पोकलेन इत्यादि का प्रयोग नियमानुसार निदेशक उद्योग हि0 प्र0 की पूर्व लिखित अनुमति से ही किया जा सकता है।
23. नदी/खड्ड में पहुँचने की सतह तक पहुँच मार्ग बनाने हेतु लोक निर्माण विभाग की सड़क से अनुमति अपने स्तर पर प्राप्त करनी होगी।
24. पत्थर व हाथ से तोड़ी गई रोड़ी को राज्य की सीमा से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
25. उच्चतम बोलीदाता को सुनिश्चित करना होगा कि उसके द्वारा लगाए गये मजदूर, नदी/खड्ड में मछलियों का शिकार न करें।
26. खनन कार्य नदी के धरातल से 3 फुट से अधिक गहराई में नहीं किया जाएगा, तथा किसी भी अवस्था में 3 फुट से गहरे गड्ढे करने की अनुमति नहीं होगी।
27. उप-मण्डल स्तर पर गठित कमेटी द्वारा हर वर्ष खनन कार्य का पुर्नरीक्षण (Review) किया जाएगा तथा अवव्यवस्थित खनन करने पर ठेका रद्द कर दिया जायेगा तथा जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी।
28. उत्खनियों की उच्चतम बोली के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा नीति निर्देशों के अनुसार मुल्यांकन करने पर ठेके की अवधि तय की जाएगी।
29. यदि नीलामी के लिए प्रस्तावित की गई खड्ड का हिस्सा संयुक्त निरीक्षण कमेटी द्वारा स्टोन कशर इकाई की आपूर्ति के लिए खनन पट्टा पर प्रदान करने के लिए नीलामी अधिसूचना जारी होने से पूर्व

- अनुमोदित किया जा चुका हो तो उस अवस्था में प्रस्तावित उत्खनि में ऐसा क्षेत्रा नीलामी क्षेत्रा का भाग नहीं होगा। ऐसे क्षेत्रों बारे जानकारी सम्बन्धित खनि अधिकारी से नीलामी तिथि से पूर्व या नीलामी के समय प्राप्त की जा सकती है ।
30. खनिजों के एकत्रीकरण से भू स्वामित्वों के निहित अधिकारों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए ।
  31. यदि वर्णित शर्तों की अवहेलना होती है या साथ लगते बन क्षेत्रा को किसी भी प्रकार की क्षति वन विभाग के ध्यान में आती है, तो बिना नोटिस जारी किये ठेका रद्द करने की कार्यवाही की जायेगी।
  32. नीलामी उन्हीं खड्डों/खानों की ही की जाएगी जिनका अनापत्ति प्रमाण पत्रा वन विभाग द्वारा जारी किया गया है।
  33. पट्टाधारक/ परमिट धारक ठेके पर स्वीकृत क्षेत्रा से खनिजों की मात्रा का मासिक व्यौरा विभाग को देगा ताकि खनिजों के एकत्रीकरण से क्षेत्रा के पर्यावरण पर प्रभाव का आकलन किया जा सके।

-----

ब अदालत श्री जय गोपाल शर्मा, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी (नायब तहसीलदार), नम्होल,  
जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

मिसल संख्या 66/11

ब मुकद्दमा :

सन्त राम पुत्र श्री नानकू निवासी सायर

बनाम

1. लाल चन्द, 2. निक्कू राम पुत्रान श्री लखू, 3. श्रीमती महन्ती विधवा स्व० श्री लखू निवासी सायर, 4. खोखड़िया राम पुत्र श्री नानकू निवासी करोट, तहसील सदर, जिला बिलासपुर।

अभियोग भूमि विभाग खाता खतौनी नं० 149/171, खसरा नं० 42, 69, 268, 270, 275, कित्ता-5, रकवा 8-11 बीघे, स्थित सायर, परगना बहादुरपुर, उप-तहसील नम्होल, जिला बिलासपुर।

उपरोक्त उनवान मुकद्दमा में प्रतिवादी नं० 1, 2, 3 व 4 को कई बार समन जारी किए गए किन्तु उस पर तामील समन न हो सकी तथा न्यायालय को यकीन हो चुका है कि उस पर तामील समन साधारण तरीके से नहीं हो सकती। अतः उसे इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 27-12-2011 को प्रातः 10.00 बजे स्थान नम्होल हमारे न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर मुकद्दमा की पैरवी करें। हाजिर न आने की सूरत में कार्यवाही यकतरफा अमल में लाई जाएगी तथा उसके पश्चात् कोई उजर या ऐतराज समायत न होगा।

आज दिनांक 15-11-2011 को मेरे हस्ताक्षर तथा मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

जय गोपाल शर्मा,  
सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी (नायब तहसीलदार),  
नम्होल, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री जय गोपाल शर्मा, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी (नायब तहसीलदार), नम्होल,  
जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

मिसल संख्या 72/11

ब मुकद्दमा :

1. शंकुतला पुत्री श्री निक्कू निवासी बाडनू, 2. गीता देवी पुत्री निक्कू निवासी घेरटा, 3. कनकू पुत्री निक्कू निवासी लुहारड़ा।

बनाम

बाबू राम पुत्र स्व० श्री नरैणू निवासी लुहारड़ा, जिला बिलासपुर

अभियोग भूमि विभाग खाता खतौनी नं० 18/19, खसरा नं० 13, 57, 107, 295/145, 148/1, 149/1, 158, 167, 228, 271, 273, कित्ता-11, रकवा 27-17 बीघे, स्थित लुहारड़ा, परगना रतनपुर, उप-तहसील नम्होल, जिला बिलासपुर।

उपरोक्त उनवान मुकद्दमा में प्रतिवादी बाबू राम पुत्र स्व० श्री नरैणू निवासी लुहारड़ा को कई बार समन जारी किए गए किन्तु उस पर तामील समन न हो सकी तथा न्यायालय को यकीन हो चुका है कि उस पर तामील समन साधारण तरीके से नहीं हो सकती। अतः उसे इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 27-12-2011 को प्रातः 10.00 बजे स्थान नम्होल हमारे न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर मुकद्दमा की पैरवी करें। हाजिर न आने की सूरत में कार्यवाही यकतरफा अमल में लाई जाएगी तथा उसके पश्चात् कोई उजर या ऐतराज काबले समायत न होगा।

आज दिनांक 15-11-2011 को मेरे हस्ताक्षर तथा मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

जय गोपाल शर्मा,  
सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी (नायब तहसीलदार),  
नम्होल, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी (तहसीलदार), सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

अमरनाथ पुत्र श्री कैला राम, निवासी गांव व डा० धार टटोह, तहसील सदर, जिला बिलासपुर,  
हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादीगण।

राजस्व अभिलेख के बलदीयत के नाम की दुरुस्ती हेतु आवेदन-पत्र।

इशतहार बनाम आम जनता।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी व प्रति शिक्षा प्रमाण-पत्र, नकल जमाबन्दी, उपभोक्ता कार्ड सहित इस आशय से गुजारा है कि उसके पिता का नाम कैला राम है जोकि सही व दुरुस्त है। लेकिन पटवार वृत्त धार टटोह, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि० प्र०) के राजस्व अभिलेख में गलती से बालक राम दर्ज है जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता एवं प्रार्थी के सभी सम्बन्धियों को बजरिया इशतहार राजपत्र सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की बलदीयत के नाम की दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन न्यायालय अधोहस्ताक्षरी दिनांक 21-12-2011 को प्रातः 10.00 बजे को आकर अपना ऐतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके प्रार्थी के बलदीयत नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 21-11-2011 को मेरे हस्ताक्षर तथा मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—,  
सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी (तहसीलदार),  
सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री सोभिया राम, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री बाबू राम सुपुत्र श्री ज्ञान चन्द, निवासी गांव चम्बी, डाकघर सुदली, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र बराए नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना—पत्र मय ब्यान हल्फी अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसकी पत्नी का सही नाम अमरावती है, जोकि ग्राम पंचायत सुदली के रिकार्ड में सही दर्ज है। लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल चम्बी में गलती से कान्ता देवी दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इशतहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पत्नी अमरावती के नाम की दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर—एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 26-12-2011 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 16-11-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

सोभिया राम,  
सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,  
डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री सोभिया राम, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री गिरधारी सुपुत्र श्री माधो राम, निवासी गांव पाही नाल, डाकघर बलेरा, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र बराए नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना—पत्र मय ब्यान हल्फी अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम गिरधारी है, जोकि ग्राम पंचायत बलेरा के रिकार्ड में सही दर्ज है। लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल चलटूहणी में गलती से गिरधारी लाल दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी गिरधारी के नाम की दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 26-12-2011 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 16-11-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

सोभिया राम,  
सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,  
डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

-----

ब अदालत श्री सोभिया राम, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री चैनों सुपुत्र श्री बीरबल, निवासी गांव गोली, डाकघर गोली, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र बराए नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम चैनों है, जोकि उसके सर्विस प्रमाण-पत्रों के रिकार्ड में सही दर्ज है। लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल मनोला व शेरपुर में गलती से चैन लाल दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी चैनों पुत्र बीरबल के नाम की दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 26-12-2011 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 16-11-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

सोभिया राम,  
सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,  
डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

-----

**In the Court of Shri Pankaj Rai, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,  
Hamirpur, Himachal Pradesh**

In the matter of :

1. Rajeev Kumar, aged 28 years s/o Shri Dalip Singh, r/o VPO Agar, Tehsil & District Hamirpur (H. P.).

2. Reena Devi, aged 21 years d/o Shri Ram Parkash, r/o Village Ropri, P. O. Katal, Tehsil Nalagarh, District Solan (H. P.) . . Applicants.

*Versus*

General public

*Subject.*—Notice of the Intended marriage.

Shri Rajeev Kumar & Reena Devi have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage within three month.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 28-12-2011. The objection received after 28-12-2011 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 19-11-2011 under my hand and seal of the court.

Seal.

PANKAJ RAI,  
*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,  
Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).*